

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट-सराहनीय कार्य दिनांक -24.10.2020

थाना अल्हागंज पुलिस टीम को मिली बड़ी कामयाबी।

चोरी की 02 मोटर साइकिल सहित 01 शातिर अभियुक्त को किया गिरफ्तार, नाजायज चाकू भी बरामदा

श्री एस आनन्द के निर्देशानुसार पुलिस अधीक्षक महोदय शाहजहांपुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमती अपर्णा गौतम पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के निर्देशन एवं श्री ब्रह्मपाल सिंह क्षेत्राधिकारी जलालाबाद के पर्यवेक्षण में थाना अल्हागंज पुलिस टीम को सफलता हाथ लगी।

इसी क्रम में दिनांक 24.10.20 को थाना अल्हागंज पुलिस टीम जब देखभाल क्षेत्र ,शान्ति व्यवस्था , संदिग्ध व्यक्ति की तलाश में मामूर थी तभी मुखविर खास द्वारा सूचना दी गयी कि 01 व्यक्ति इमलिया रोड पर एक व्यक्ति चोरी की हुयी मोटर साइकिल बिक्री करने हेतु खडा है सूचना पर पुलिस टीम जब मौके पर पहुँची तो उक्त व्यक्ति अपाचे मो0सा0 पर बैठा किसी का इन्तजार कर रहा था घेराबन्दी कर पुलिस टीम द्वारा अभि0 रामबीर पुत्र श्री कृष्ण किसान उम्र 22 वर्ष नि0 ग्राम समापुर थाना अल्हागंज जिला शाहजहांपुर को गिरफ्तार किया गया जिससे पूछताछ एवं जामा तलाशी के दौरान चोरी की 02 मो0सा0 क्रमशः मोटर साइकिल अपाचे रंग सफेद UP 74 S 4166 2.मोटर साइकिल डिस्कवर रंग काला DL 85 AY 0973 के साथ 01 अदद नाजायज चाकू बरामद किया गया। जिसके सम्बन्ध में थाना अल्हागंज पर विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

विवरण पूछताछ:-

गिरफ्तार अभियुक्त रामबीर सिंह से गहनता से पूछताछ पर बताया गया कि मेरे पास जो बाइक है वह चोरी की है बेचने के लिये ग्राहक का इंतजार कर रहा था । जो अपाचे मोटर साइकिल मैंने कन्नौज से चोरी की है । तथा दूसरी मोटर साइकिल डिस्कवर दिल्ली से चोरी कर लाया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण: -

रामबीर सिंह S/O श्री कृष्ण किसान उम्र 22 वर्ष नि0 ग्राम समापुर थाना अल्हागंज जिला शाहजहांपुर

आपराधिक इतिहास:

मु0अ0सं0 0283/2020 धारा 411/414 IPC थाना अल्हागंज जिला शाहजहांपुर

मु0अ0सं0 0284/2020 धारा 4/25 आर्मस एक्ट थाना अल्हागंज जिला शाहजहांपुर

बरामदगी का विवरण -

1. मोटर साइकिल अपाचे रंग सफेद UP 74 S 4166
2. मोटर साइकिल डिस्कवर रंग काला DL 85 AY 0973
3. एक अदद नाजायज चाकू

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. SI श्री रूपनारायण सिंह थाना अल्हागंज जिला शाहजहांपुर
2. का0 2342 विशू तोमर थाना अल्हागंज जिला शाहजहांपुर
3. का0 237 नीरज धामा थाना अल्हागंज जिला शाहजहांपुर
4. कां0 677 सुमित कुमार थाना अल्हागंज जिला शाहजहांपुर

